



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 18, 2018/पौष 28, 1939

No. 32]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 18, 2018/PAUSHA 28, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 41(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य (शैक्षणिक समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2017 को संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य (शैक्षणिक समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य (शैक्षणिक समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2017 की अनुसूची में सहायक आचार्य के पद से संबंधित प्रविष्टियों में स्तंभ (7) के अंतर्गत उप-शीर्ष 'वांछनीय' के क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या 1 और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“1. मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्त निकायों अथवा कानूनी संगठनों अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीधे नियंत्रण में आने वाले संस्थानों में इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की संबंधित शाखा में शिक्षण, अनुसंधान, औद्योगिक अथवा वृत्तिक अनुभव”

[फा. सं. I-12012/01/2015-प्रशा. (सीडी)]

गौतम घोष, निदेशक

नोट : मूल नियम दिनांक 29 मई, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 530(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th January, 2018

G.S.R. 41(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, President hereby makes the following rules to amend the National Fire Service College, Nagpur, Professor, Associate Professor and Assistant Professor (Academic Group ‘A’ Posts) Recruitment Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the National Fire Service College, Nagpur, Professor, Associate Professor and Assistant Professor (Academic Group ‘A’ Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Fire Service College, Nagpur, Professor, Associate Professor and Assistant Professor (Academic Group ‘A’ Posts) Recruitment Rules, 2017, in the Schedule, in the entries, relating to the post of Assistant Professor, under column (7) under the sub-heading ‘Desirable’, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number 1 and entries, shall be substituted, namely: -

“1. Teaching, research, industrial or professional experience in the relevant branch of Engineering and Technology in the recognised Research Institutions or Universities or Semi-Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations or Institutions under the direct control of the Central Government or State Government or Union Territories administration or Public Sector Undertakings.”

[F. No. I-12012/01/2015-Ad. (CD)]

GOUTAM GHOSH, Director

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 530(E), dated the 29th May, 2017.